RMGB/DF-1



## राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक

## Rajasthan Marudhara Gramin Bank

खाता संख्या Account No.

व्यक्तिगत रुप में जमा खाता खोलने का फार्म

DEPOSIT ACCOUNT OPENING FORM FOR INDIVIDUAL(S)



वित्तीय वर्ष 2018–19 ''जल संरक्षण वर्ष''



आरएमजीबी में जमा खाता - एक सही निर्णय

आर एम जी बी R M G B	राजस्थान मरूध Rajasthan Marudh	रा ara	ग्रामीण बैंक Gramin Bank	व्यक्तिगत रूप में खाता खोलने का फार्म ACCOUNT OPENING FORM FOR INDIVIDUAL(S)
शाखा Branch	कूट सं. Code No.		दिनांक Date	
लाभार्थी का आधार सं. /			खाता संख्या	
Beneficiary's Aadhar No.			Account No.	
किस प्रकार का खाता खोलना है, कृष् Please tick (✔) type of account req				ण के अनुसार एक खाता खोलें : ount as per details below :
	वाते के प्रकार**			ount as per details below . गाऐं समयाविध सहित
	stomer/Account**		5	ce/Deposit with period
नियमित बचत बैंक खाता	ग्रामीण / Rural	П		.0* चैक बुक सहित / With Ch. Book ₹500
Regular Savings Bank A/c	गैर−ग्रामीण / Non-Rural			0* चैक बुक सहित / With Ch. Book ₹1000
कर्मचारी के वेतन खाते / Employees S			शून्य / Nill	
फ्लेक्सी जमा / Flexi Deposit		$\overline{\Box}$	Rs.10,000	
चालू खाता / Current A/c		$\overline{\Box}$	ग्रामीण / Rural Rs.2500/-* गैर ग्रामीण /	Non-Rural Rs 2500/-*
आवर्ती जमा/ मनी बॉक्स / Recurring [	Danasit / Manay Bay		яння (Vulai (S.2500) 1 ( яння)	Non-ixurarixs. 2000/-
		$\Box$	ब्याज दर  / Interest Rate	अवधि / Period माह / Month
विशेष मियादी जमा / Special Term De	eposit		परिपक्वता दिनांक / Maturity Date	
मियादी जमा / Term Deposit			परिपक्वता मूल्य / Maturity Value	
कर बचत जमा / Tax Saver Deposit			<u> </u>	
पेंशन खाता / Pension A/c			अवयस्क खाता / Minor A/c	
स्टाफ खाता / StaffA/c			वरिष्ठ नागरिक / Senior Citizen	
अन्य / others No FRILL				
	प्रथम आवेदव	रू (क	) द्वितीय आवेदक (ख	व) तृतीय आवेदक (ग)
आवेदक का पूरा नाम				
(IN BLOCK LETTERS)				
सीआईएफ नम्बर				
मोबाईल नम्बर				
ानार्या । नर				
आवेदक का नवीनतम				
फोटो चिपकाएं				
(स्टेपल नहीं करें)				
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				
आवेदक के नमूना				
हस्ताक्षर				
अतिरिक्त सुविधाऐं / ADDITIONA	LFACILITIES**			
मैं 🗸) चिन्हित उत्पादों/सेवाओं का	भी उपयोग करना चाहता हूँ/चाहत	ती हूँ (	(प्रत्येक आवेदक द्वारा अलग से आवेदन	किया जाए)
एटीएम-सहडेबिट कार्ड (देशी/अन्त	र्राष्ट्रीय) 🗌 मोब	ग्राईल	बैंकिंग सेवा मोबाइल सं	पर
इन्टरनेट बैंकिंग	एस	एमए	प्र अलर्ट्स 🔲 स्मार्ट 🗀	कार्ड 🗌
टेली बैंकिंग	ब्रे वि	डेट क	गर्ड 🗌 लॉकर	सुविधा (उपलब्ध के अधीन)
परिचालन विधि / Mode of	Operation**			
केवल स्वयं द्वारा/ Self only		पूर्ववत	र्गी या उत्तरजीवी/ Former or Suvivor ि	संयुक्त रूप से/ Jointly
दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी/ Eith				_
		4115	on a coccied six // Any Other (Spec	''y <i>)</i>
कोई एक या उत्तरजीवी/ Any one				
नामांकन-क्या नामिती का नाम पास बुक Nomination-Whether name of no		Book		हाँ नहीं Yes No

i) 	मैं/हम उपर्युक्त खातों/सेवाओं/उत्पादों से सम्बन्धित बैंक-नियमों का पाल		-	elating to the conduct of the above accou	unts/services/products.*
ii)	भुगतान नवीनीकरण निर्देश (ब्याज/भुगतान) / PAYMENT/RENEWAI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₩ · C ½
	कृपया मियादी जमा का परिपक्वता पर उसी अवधि हेतु नव			हीं करें एवं बचत/चालू खाता सं	
H	Please renew the Term Deposit for similar period on maturit			nd transfer to Savings/Current A/c No श डाफ्ट / चैक के द्वारा प्रेषित करें.	
	ब्याज सहित मूल राशि का नवीनीकरण Renew Principal Plus Interest for			શ ક્રાયટ/ ચંજા જા દ્વારા પ્રાયત જાર. ity amount through DD/B. Cheque	
H	न्य केपया केवल मूल राशि का नवीनीकरण करें एवं ब्याज की			श (कृपया उल्लेखित करें) Any other Inst	ructions (please specify)
	राशि बचत बैंक / चालू खाता सं		नगर् अस्माप्	(1 ( 3) 1 11 0 ( (1 G) 1 7) 7 my out of 1130	ructions (picase specify)
	Renew Principal only and Transfer Interest to Savings/Curr				
:::\ L	ग्राहक पहचान संख्या के अन्तर्गत किया गया नामांकन उस ग्राहक पहचान		जब बक्र बैंक को शब्स में	ो लिखित में मनित नहीं किया गया हो।	
iii)	The nomination made shall be effective to all deposit opened	d/credited on the same CIF number, unless	specifically communic	cated to be the Bank in writing.	
iv)	(i) हम यह सूचित करते हैं कि बैंक इस जमा को हममें से किसी एक को	, किसी भी दिन, नियत भुगतान तिथि को अथवा उस	से पूर्व, नियत भुगतान तिरि	थ को अथवा बाद में, और जहाँ भुगतान तिथि नि	
	ब्याज सहित भुगतान कर सकता है। हममें से किसी को भी भगुतान, हम	सभी की ओर से प्राप्त किया माना जायेगा। जब तक	कि दोनों/सभी की ओर से	। इसके विपरीत सूचना आपको प्राप्त न हो। किर	प्ती की भी मृत्यु होने की स्थिति मे
	राशि उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों को भुगतान होगी। (i) We advise that the Bank may pay to anyone of us, any d	av either before or on due dage, on or afte	r due date and where	e on due date is fixed on demand the	principal along with interes
	(i) We advise that the Bank may pay to anyone of us, any of Payment to any one of us is discharged from all of us, until y				
	(ii) 'पूर्ववर्त्ता व्यक्ति अथवा उत्तरजीवी' परिचालन विधि के हमारे संयुक्त जहां कोई देय तिथि नियत नहीं की गयी है, मांग पर ब्याज सहित मूलधन				
	जहां काइ दय तिथि नियत नहां का गया है, माग पर ब्याज साहत मूलवन व्यक्ति' की मृत्यू की दशा में उपरोक्तानुसार उत्तरजीवी को भुगतान किया		न दाना का मुगतान करना	माना जाय, जब तक हम दाना स इसक विपरात	काइ नाटिस नहा मिला पूर्ववर
			eration, we advise tha	it the bank may pay to the "Former" any	day either before or on du
	(ii) "With reference to the captioned account jointly held by u date, on or after due date and where no due date is fixed, or notice contrary to it from both of us. In case of death of the "	n demand, the principal alongwith interest. F Former", the amount in the manner as state	'ayment to the "Forme d above be paid to the	er" shall be treated as discharge from bo e survivor".	oth of us, untill you receive
v)	में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि अवयस्क, जो मेरा	है, कि जन्म तिथि		है तथा मैं उसका नैसगिक संरक्षक हूँ/ दिनाक	<del>c</del>
	न्यायालय आदेश (प्रति संलग्न) द्वारा नियुक्त वैध संरक्षक हूँ जब तक उ किए गये किसी भी आहरण/लेन-देन के लिए उपर्यक्त अवयस्क के किस		गाकसा भा प्रकार क सभ	। भावा लन-दन म म उक्त अवयस्क प्रातानाधल	व करूगा। उसक खात म मर द्वा
				and I am his/her natu	ral guardian/lawful guardia
	I hereby declare that date of birth of minor isappointed by the court order datedthe said minor attains majority. I indemnify the Bank against	(copy enclosed). I shall repres any claim of the above minor for any with d	ent the said minor in rawal/transactions ma	all future transactions of any description ade by me In his/here account.	n in the above account unt
vi)	में/हम घोषणा करते हैं कि उपरक्ति विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास मे	'सत्य है। इनमें परिवर्तन होने को स्थिति में बैक को र्	रुन्त सूचीत कर दिया जाय	रंगा।	
vii)	I/ we undertake that above Infomration are correct to the bes आगे मैं समझता हूँ कि मुझे मेरे मोबाईल सैट से खाते को संचालित करने	st of my/our knowledge and belief and when	ever any change take	es place in any of these, I/we shall inforn रोग करते द्वा उपलब्ध है। निरम शर्ते जो खाता	n to the Bank Immediately. खोलने के फार्म के साथ संलान
VII)	जिन पर मैंने हस्ताक्षर इस आशय के साथ किये है उनको मैंने पढ़ एवं सम		313(11) 6-11-14-1 471 34-	नाम करता हुए उनराज्य है। मिनम सत्त आ आता	GICH TO THE TO CHA CICE
	Further I understand that I have the Option to operate this a a token of my self having read and understood all its stipulat	ccount through my mobile handset using M	PIN as per Terms & C	Conditions attached to this A/c Opening	form which I have signed a
viii)	a token or my seir naving read and understood all its stipulat मुझे/हमें भारतीय बैंकिंग कोड, ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी, लोकप	ions and agree to be bound. ग़ल सम्बन्धित प्रावधानों का विवरण एवं बैंक चार्जेज	, बैंक से सम्बहिन्धत सूच	नाएं बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होने तथा चा	ाहे जाने पर शाखाओं द्वारा उपलब्
	करवाने का सूचित किया गया।		-		
	I We have been Informed about availability of Indian Bank www.mgbbank.com and copy may be made available by the	king Code, Customer Grievance Redressa branches on demand.	Policy, provisions re	egarding Lokpal and prescribed bank of	charges on Bank's website
विदेश	गो खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) एवं कॉमन रिपोंटिंग म				
1.	मैं/हम प्रमाणित करते है कि मैंने/हमने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसृ	चना संख्या एस.ओ. 2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 20			संख्या ३६/१४.०१.००१/२०१५-१६
2	दिनांक 28 अगस्त 2015 के अनुसार भारतीय आयकर अधिनियम 1961 व मैं/हम यह समझता हूँ एवं स्वीकार करता हूँ कि आयकर अधिनियम के उ	की धारा 285 बीए के तहत लागू नियमों के अनुसार म	ारा/हमारा Status घोषित व	कर दिया है। चे असमार विकास कराने कि	forther arm musical of anom
2.	पर, बैंक को हमारे खाते (तों) से संबंधित जानकारी निर्धारित प्रारूप में				
	(सीआरएस) या अन्य कोई भी इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत किये गरे	ो अंतर सरकारी समझौते के दायित्व की अनुपालना मे	ां रिर्पोट करनी पड़ सकती	है।	
3.	मैं/हम यह प्रमाणित करते है कि मेर/हमारे द्वारा प्रदत्त सूचनाएँ, जैसा की				
	अनुसार सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई सूचना अथवा ज अन्य किसी भी रूप में प्रभावित कर दे।	ानकारा अपने पास Withheld नहीं की है जो की मन	/हमार बक खात क आव	hलन अथवा वंगाकरण का US रिपाटबल खाता	िया अन्य रिपाटबल खाता अथव
4.	मैं/हम यह जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते है कि उपरोक्त वर्णित सूचना अथवा प्रद	त्त दस्तावेजी साक्ष्यों में यदि कोई भी परिवर्तन होता है	तथा कोई भी जानकारी ह	मुटिपूर्ण या गलत हो जाती है तो मैं/हम सही सूचन	ना स्वहस्ताक्षरित दस्तावेजी साक्ष्ये
	के साथ उक्त परिवर्तन के 30 दिन के भीतर ही घोषित अथवा प्रकट करूर				
5.	मेरे/हमारे द्वारा यदि कोई भी तथ्य जो हमें ज्ञात है/था एवं मैंने/हमने उसे फ्र करने से मझे/हमें प्रतिबंधित करने अथवा मेरे/हमारे खाते को बंद करने अ				
	पर जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत करने की सहमति प्रदान करता/ते है।	वियो भारत सरकार या भारताय रिजय जक द्वारा गाम	ाताकसा मा आविकरण व	हा रिपाट करन का कायपाहा सामाजाटा या मार	ताय रिजय अक द्वारा समय-समय
6.	यदि इस विषयवस्तु में भारत में अथवा विदेश में लागू कानून में कोई र्भ	ो परिवर्तन होता है एवं राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंग	क द्वारा मुझसे/हमसे इस स	मंदर्भ में मुझे/हमें सूचित किया जाता है तो मैं/हा	म उक्त सूचना समय पर उपलब्ध
_	करवाने की सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं।		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		
7. EATC	यदि मेरे/हमारे द्वारा कोई भी त्रुटिपूर्ण अथवा गलत सूचना प्रदान किये जाने	क कारण राजस्थान मरूधरा ग्रामाण बक काई भा हा	ान हाता ह ता म/हम राजस	थान मरूधरा ग्रामाण बंक का Idemnify करूगा,	/करग।
1.	A & CRS Related Declaration cum undertaking  I/we hereby certify that I/Wehave declared my/our status as per the r			ified by Central Board of Direct Taxes (CBD	OT) vide Notification No. S.O.
2.	2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AMLE I/We understand and acknowledge that as per the provisions of Inco			BI in the matter, depending upon the resident	tial status and/or other criteria
	stipulated therein, the Bank may have to report the details in respectibilities obligations as per the Inter-Governmental Agreements (IGA) in respectively.	t of our account(s) as per the prescribed format	to the Central Board of	Direct Taxes (CBDT) or other Government	t Agencies to comply with the
3.	I/We certify that the information provided by me/us above as application correct and complete and that I/we have not withheld any material in	ble to me/us and signed by me/us as well as in the	ne documentary evidence	e provided by me/us are, to the best of my/o	ur knowledge and belief, true,
4.	I/We undertake the responsibility to declare and disclose within 30 d	ays, from the date of change, any changes that n	nay take place in the info		
5.	by me/us or if any certification become incorrect and to provide fresl I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact known to the control of the contro	wn to me/us, now or in future, may invalidate m	e from transacting in the		
	to put restrictions in the operations of my/our account or close it or deemed appropriate by Rajasthan Marudhara Gramin Bank, under the				
6.	I/We also agree to furnish and intimate to Rajasthan Marudhara Granherein.				
7.	I/We shall indemnify Rajasthan Marudhara Gramin Bank for any loss	that may be caused to Rajasthan Marudhara Gra	min Bank on account of	providing incorrect or incomplete information	on by me/us.
भ	वदीय / Yours Faithfully				
	क/A	ख/B		π/C	
	ग्राहक के हस्ताक्षर / Signature of Customer	ग्राहक के हस्ताक्षर / Signature of Customer		ग्राहक के हस्ताक्षर / Signature of Customer	
$\vdash$					
	* ( ^ )				
L	जाँचकर्त्ता अधि. के ह., नाम और ह. सं. / Slg., Name & S.S. No. of Verifying Official.	जाँचकर्त्ता अधि. के ह., नाम और ह. सं. / Slg., Name & S	S. No. of Verifying Official.	जाँचकर्त्ता अधि. के ह., नाम और ह. सं. /Slg., Name	& S.S. No. of Verifying Official.

<sup>\*</sup> समय-समय पर परिवर्तनीय है एवं बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित तथा प्रति शाखा में उपलब्ध है। \* May Change from time to time & will be displayed on the bank's website and copy available at branch \*\*(चिन्हित ✓ करें / Put ✓ Mark)



## राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK

व्यक्तिगत सी आई एफ फॉर्म "PERSONAL" CIF FORM

कान∕फ्लैट नं. Door/ ली∕रोड़ ∕ब्लॉक सं. S	Title First Name Middle Name Last Name ner/Spouse Name s Maiden Name (op)  Flat No.: Building/Society treet/Road Name/Block					PR[]	/ श्रीम	ती MI	RS	[ ]/	पुश्री ۱	15[]	अन्य	other	rs [	(Plea	ase ti	ck)
ध्य नाम न्तिम नाम ता/पति का नाम Fath ता का नाम Mother कान/प्लैट नं. Door/ ली/रोड़/ब्लॉक सं.S	Middle Name  Last Name ner/Spouse Name s Maiden Name (op)  Flat No.: Building/Society	7	त्रर्तमार	न पता	/ Pre													
न्तिम नाम ता ∕पित का नाम Fath ाता का नाम Mother' कान ∕प्लैट नं. Door/ ली ∕रोड़ ∕ ब्लॉक सं. S	Last Name ner/Spouse Name s Maiden Name (op) Flat No.: Building/Society	7	त्रर्तमान	न पता	/ Pre													
त्ता ∕पित का नाम Fath ाता का नाम Mother' कान ∕प्लैट नं. Door/ ली ∕रोड़ ∕ब्लॉक सं. S	ner/Spouse Name s Maiden Name (op) Flat No.: Building/Society	7	त्रर्तमान	न पता	/ Pre													
ाता का नाम Mother' कान ∕फ्लैट नं. Door/ ली ∕रोड़ ∕ ब्लॉक सं. S	s Maiden Name (op)  Flat No.: Building/Society	7	त्रर्तमान	न पता	/ Pre													
कान∕फ्लैट नं. Door/ ली∕रोड़ ∕ब्लॉक सं. S	Flat No.: Building/Society	7	त्रर्तमान	न पता	/ Pre													
ली ⁄रोड़ /ब्लॉक सं. S		7	त्रर्तमान	न पता	/ Pre													
ली ⁄रोड़ /ब्लॉक सं. S					/ 1 10	sent A	ddres	ss				स्था	यी पत	<b>т</b> / Р	erma	nent A	Addre	ss
* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	treet/Road Name/Block																	
हिल्ला /गांव /तहसील	. COUT COUGH NUMBER DIOUN																	
16((11) 11-1) (16(11(1	Locality/Village/Tehsil																	
<b>ग</b> ला	District																	
हर / कस्बा	City/Town																	
ज्य / देश	State /Country																	
स्ट / पिन कोड	Post/Pin Code										$\top$							
गेन ( घर ) लैंडलाईन	Phone (Home) Landline										İ							
ोन ( व्यवसाय )	Phone (Business)																	
बाइल नं.	Mobile Number																	
व्यस नं.	Fax Number																	
-मेल का पता	E-mail Address			1										-	-			
ाषा	Language																	
न्म तिथि	Date of Birth																	
	Gender	<u> </u>	रुष /	Male	[ ]		महि	हेला /	Fe	male			(Plea	ase ti	ck)			
वाहिक स्थिति	Marital Status	वि	त्रवाहि	त Ma	rried	]	अवि	ववाहि	इत ।	Jnmai	ried [	]	अन्य	(Oth	ers) [	]		
ष्ट्रीयता	Nationality																	
धिवास	Domicile																	
ावास स्थिति	Occupancy / Residence	स्र	त्रयं क	ा मक	ान Ho	me Ov	/ner [	]	f	कराये	पर Re	nted [	]	अ	न्य Ot	hers [	]	
जीडेन्ट स्थिति	Resident Status	f	नवासी	भारत	 गिय / F	Reside	nt Ind	ian [		] अ	निवार्स	10 / 1	n-Res	ident	[	/		
		नि	नवासी	लिक	न साम	ान्यतः न	ाहीं रह	ते / R	Resi	- ident l	out no	t Ordir	arily	Resid	- dent [	](	Plea	se tick
थाई वापसी की तिथि 🛭	Date of permanent Return																	
	(ForNRE)																	
भिवादन अपेक्षित	Greetings Required	हाँ Yes नहीं No				10	(Please tick)											
न / जीआईआर नं.	PAN /GIR Number										फार्म F	orm 60	/61 हाँ	Yes*	संलग्न	f (End	losed	) / नहीं
ाधार नं.	AadharNo.																	
	First ID			,	संख्या /	No.							दिनांक	Z / Da	ate			
थम पहचान प्रलेख	ו ווסנוט													. , D	110			
	ज्य / देश स्ट / पिन कोड न (घर) लैंडलाईन न (घर) लैंडलाईन न (व्यवसाय) बाइल नं. क्स नंमेल का पता ाषा -म तिथि गंग वाहिक स्थिति छ्रीयता धिवास वास स्थिति तीडेन्ट स्थिति गई वापसी की तिथि [	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (व्यवसाय) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ांग Gender व्यहिक स्थिति Marital Status छ्रीयता Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence वीडेन्ट स्थिति Resident Status गई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required न / जीआईआर नं. PAN /GIR Number	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ांग Gender प् व्याहिक स्थिति Marital Status व्यास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्थिति Resident Status ाई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required न / जीआईआर नं. PAN /GIR Number	State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (च्यवसाय) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ांग Gender पुरुष / व्याहिक स्थिति Marital Status विवाहि छ्रीयता Nationality धिवास Domicile वास स्थित Occupancy / Residence स्वयं क् तीडेन्ट स्थिति Resident Status निवासी गाई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Ye	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (च्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ांग Gender पुरुष / Male चाहिक स्थिति Marital Status विवाहित Ma च्योवता Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मक तीडेन्ट स्थिति Resident Status निवासी भारत् निवासी लोक गई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes	State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ति (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ति (घर ) लैंडलाईन Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ति Gender पुरुष / Male [ ] व्राहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [ व्राहिक स्थिति Occupancy / Residence वास स्थिति Occupancy / Residence वास स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / निवासी लेकिन साम गई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes	State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ांग Gender पुरुष / Male [ ] व्याहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [ ] व्याहिक स्थिति Occupancy / Residence वास स्थिति Occupancy / Residence वास स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / Residen निवासी लेकिन सामान्यतः न् गई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes	त्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ति (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ति (च्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language न्म तिथि Date of Birth ति Gender पुरुष / Male [] मि व्यहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अति व्यहिक स्थिति Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [ तीडेन्ट स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / Resident Ind निवासी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes त्र / जीआईआर नं. PAN /GIR Number	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (च्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number वस नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language व्या तिथि Date of Birth तंग Gender पुरुष / Male [] महिला / व्याहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहि च्यास प्रिथता Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] तीडेन्ट स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / Resident Indian [ निवासी को तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes ना	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (च्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number वस नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language व्या तिथि Date of Birth तंग Gender पुरुष / Male [] महिला / Fe व्यहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित । ज्योयता Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] तिथिने स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / Resident Indian [ निवासी को तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं N	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code  तेन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline तेन (च्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address त्या Language -म तिथि Date of Birth तंग Gender पुरुष / Male [] महिला / Female   व्याहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित Unmar ध्रीयता Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] किराये तीडेन्ट स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / Resident Indian [] अ निवासी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE)  भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code  ान (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline तेन (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Numberमेल का पता E-mail Address व्या Languageम तिथि Date of Birth तंग Gender पुरुष / Male [] महिला / Female [] व्याहिक स्थित Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित Unmarried [ व्याहिक स्थित Nationality धिवास Domicile व्यास स्थित Occupancy / Residence वास स्थित Resident Status निवासी भारतीय / Resident Indian [] अनिवासी निवासी लेकिन सामान्यतः नहीं रहते / Resident but no वाई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ान (घर) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ान (च्यवसाय) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language -म तिथि Date of Birth ांग Gender पुरुष / Male [] महिला / Female [] बाहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित Unmarried [] प्रियाता Nationality धिवास Domicile वास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] किराये पर Rented [ तीडेन्ट स्थिति Resident Status निवासी भारतीय / Resident Indian [] अनिवासी / Nor निवासी लेकिन सामान्यतः नहीं रहते / Resident but not Ordin ाई वापसी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code  ान (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline । (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address । पा Language म्म तिथि Date of Birth  ांग Gender पुरुष / Male [] महिला / Female [] (Pleating and the provided and the	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language म्म तिथि Date of Birth तंग Gender पुरुष / Male [] महिला / Female [] (Please tic बाहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित Unmarried [] अन्य (Oth स्ट्रीयता Nationality धिवास Domicile वास स्थित Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] किराये पर Rented [] अनिवासी / Non-Resident निवासी भारतीय / Resident Indian [] अनिवासी / Non-Resident निवासी केतिश Date of permanent Return (ForNRE) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No (Please tic	ज्य / देश State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code ोन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline ोन (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number -मेल का पता E-mail Address ाषा Language म्म तिथि Date of Birth तंग Gender पुरुष / Male [] महिला / Female [] (Please tick) बाहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित Unmarried [] अन्य (Others) [ प्रियता Nationality धिवास Domicile वास स्थित Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] किराये पर Rented [] अन्य Others) [ निवासी भारतीय / Resident Indian [] अनिवासी / Non-Resident [ निवासी भारतीय / Resident Indian [] अनिवासी / Non-Resident [ निवासी नेकिन सामान्यतः नहीं रहते / Resident but not Ordinarily Resident [ प्रिणिशिट) भिवादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No (Please tick) प्रियंता प्रिताहित प्रामि Form 60/61 हाँ Yes क्षा मिंच मिंच क्षा मिंच मि	प्रद / देश State /Country प्रस् / पेन कोड Post/Pin Code  Iन (घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline Iन (व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number  प्रेम का पता E-mail Address प्रा Language म तिथि Date of Birth प्रेम Gender प्रक्ष / Male [] महिला / Female [] (Please tick) बाहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [] अविवाहित Unmarried [] अन्य (Others) [] प्रियास Domicile बास स्थित Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [] किराये पर Rented [] अन्य Others []/ विवासी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE)  भियादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No (Please tick) प्रा (जीआईआर नं. PAN /GIR Number   फार्म Form 60/61 हाँ Yes* संलग्न (Enc.)	State /Country स्ट / पिन कोड Post/Pin Code  In ( घर ) लैंडलाईन Phone (Home) Landline In ( व्यवसाय ) Phone (Business) बाइल नं. Mobile Number क्स नं. Fax Number  पेल का पता E-mail Address पा Language मा तिथि Date of Birth  पंग Gender पुरुष / Male [ ] महिला / Female [ ] (Please tick) बाहिक स्थिति Marital Status विवाहित Married [ ] अविवाहित Unmarried [ ] अन्य (Others) [ ]  प्रियात Nationality धिवास Domicile बास स्थिति Occupancy / Residence स्वयं का मकान Home Owner [ ] किराये पर Rented [ ] अन्य Others [ ] तिचासी की तिथि Date of permanent Return (ForNRE)  भियादन अपेक्षित Greetings Required हाँ Yes नहीं No (Please tick)  प्राप्त जीआईआर नं. PAN /GIR Number

नामांकन / Nomination	า		फा	र्म डी	ए 1 Form DA 1
बैंक जमाओं के संबंध में बैंककारी विश् Nomination under Section 45ZA of the E मैं / हम, I/We	नियम, <b>1949 की धारा 45 जेड ए तथा बें</b> Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (	किंग कम्पनी ( नामांकन ) वि (1) of banking Companies (N	नियम 1985 के Iomination) Rule	<b>नियम</b> es, 198	2 (1) के अंतर्गत नामांकन 5 in respect of Bank Deposits
	(नाम और पता / Name and A				0 34
निम्नलिखित व्यक्ति को नामाकित कर	ता हूँ / करते हैं जिसे मेरी / हमारी / अ				स्थान मरुधरा ग्रामीण बैक ौर पता जिसमें राशि जमा है)
	ण नीचे दिया गया है; nominate the				
the amount of the deposit, particular	s whereof are given below, may be retu Na	urned by <b>RAJASTHAN M</b> Ime and address of branch	ARUDHARA G / office in which	RAMI the de	N BANK eposit is held)
	जमा / DE				,,,
खाते का प्रकार	विशिष्ट खाता क्र. / ग्राहव		अन	य विव	रण, यदि कोई हो
Nature of Account	Distinguishing Account	·			al details, if any
	 नामिती / N	IOMINEE			
नाम	पता	जमाकर्त्ता के साथ, र	पंत्रंध यटि हो	आयु	नामिती की जन्म तिथि
Name	Address	Relationship with de		Age	Date of birth of nominee
2. आज के दिन नामिती अवयस्क हैं, अत					_
As the nominee is minor on this date	ə, I/we appoint, Shri/Smt./Kum				
(नाम, पता और आयु / Name, Address	s and Age)				
को नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी	/ हमारी / अवयस्क की मृत्यु होने पर उसक	<sub>जी</sub> ओर से जमा की राशि प्राप्त	करने के लिए नि	नयुक्त व	हरता ∕ करती हूँ ∕ करते हैं।
	t on behalf of the nominee, in the even		during the min	ority o	f the nominee.
(याद नामिता अवयस्क न हो, तो काट द	/ Strike out, if nominee is not a minor)				
साक्षियों के नाम, हस्ताक्षर एवं पते Name(s), signature (s) and address	(es) of the witnesses @		जमाकर्त्ता (	ओं) वे	त्र हस्ताक्षर / अंगुठा निशान
स्थान / Place :	दिनांक / Date :	Signat			ession(s) of depositor (s)*
	के नाम में हो, वहाँ ऐसे नामांकन पर उस व्य	क्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने	चाहिए जो कानू-	नी रूप	से उस अवयस्क की ओर से
कार्य करने का हकदार हो। Where deposit is made in the r	name of the minor, the nomination sho	ould be signed by a perso	n lawfully entit	tled to	act on behalf of the minor
@ अंगूठा-निशान दो साक्षियों द्वारा अनु	प्रमाणित किये जाएंगे। Thumb Impression	n (s) shall be attested by	two witnesses		dot on bondin or the minor.
	f nomination facility not required				
मुझे / हमें नामांकन सुविधा नहीं चा	हिए / I/we don't wish to avail nominati	•			के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान pression(s) of depositor(s)*
(Cut Here)				_	यहाँ काटे ·
	Rajasthan Marudhara Gram				re
शाखा / Branch		IIII Burik		, 201	
	m				
महोदय / महोदया Dear Sir / Madam					
	कन सुविधा पावती NOMINATIOI				
1	नांक के	We acknowledge rece Shri / Smt./ Kum.	ipt of nomina	tion m	ade by you in favour of
्र अनुसार श्रा / सुश्रा / कु	के पक्ष में नामांकन आपके	aged	_ years in res	spect	of your
खाता क्र. / ग्राहक पहचान सं	क पक्ष म नामाकन आपक के लिए हैं।	(SB/CA/TDR/S	STDR etc.)		0.
(बचत / चालू / मि. जमा / वि.मि	·	on form DA 1 date	•		
	भवदीय				Yours Faithfully
	शाखा प्रबंधक				Branch Manager

(शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)  खाता खोलने की तिथि Account opened on (date)  खाता खोलने वाले ऑपरेटर का नाम / Account opened by Operator (name)  प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name)  इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on  ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No. ———————————————————————————————————	2 <del>-1</del>	र्गालय उपयोग के लिए / FOR OFFI	
if Introducer called at the branch & Interviewed by परिचयदाता साखा में नहीं आये किन्तु (के द्वारा पुण्टि प्राप्त को गई।)/Introducer did not call at the branch but confirmation obtained by (Mode of confirmation)  एडचान के विवरण	आवेदक सं पूछताछ को गई और प्रयोजन सुनिश्चि ————————————————————————————————————		
परिचयता शाला में नहीं आये किन्तु (के द्वारा पुष्टि प्राप्त को गई।) Introducer did not call at the branch but confirmation obtained by (Mode of confirmation) पराचान के विवरण (प्राप्त किये गए दस्तावेजों की छाया प्रति) / Particular of identifice photo copy of the documents obtain in iden दें अस्वीकार करें (कारण दें) खाना संख्या photo copy of the documents obtain in iden दें अस्वीकार करें (कारण दें) खाना संख्या PEN THE ACCOUNT NO.			<u>~</u>
confirmation obtained by (Mode of confirmation) पहचान के विवरण (प्राप्त किये गए रस्तावेजों की छावा प्रति) / Particular of identifica photo copy of the documents obtain a sire दें अस्वींकार करें (कारण दें) खाना संख्या ACCOUNT NO.			
photo copy of the documents obta PENTHE ACCOUNT REJECT (GIVE REASONS)	confirmation obtained by (Mode of confirm	ation)	
शाता खोल दें अस्बीकार करें (कारण दें) खाता संख्या ACCOUNT NO.  (शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी (Branch Manager/Authorised Officer) Operator Officer  खाता खोलने की तिथि Account opened on (date)  खाता खोलने वाले ऑपरेटर का नाम / Account opened by Operator (name)	पहचान के विवरण		
(शाखा प्रबन्धक / प्राप्तिकृत अधिकारी) ((शाखा प्रबन्धक / प्राप्तिकृत अधिकारी) ((शाखा प्रवन्धक / प्राप्तिकृत अधिकारी का नाम / Account opened by Operator (name)  प्राप्तिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name)  इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टेली बॅकिंग परुचान प्रेषण की तिथि / Intemet (INB) / Tele Banking Id despatched on  ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.  परिचयदात को दिनांक को पेचा गया / Introducer on  0. पारती ग्राहक के दिनांक / Acknowledgement received from customer on  पराचयता को दिनांक / Acknowledgement received from customer on  को और /and परिचयतात कि मामांकन फार्म सं.  पर रिजस्टर में दर्ज किया गया / Nomination form entered in the register at serial No.  सीबीएस में नामांकन संख्या / CBS Nomination No.  2. प्रार्टीभक सीमा रु. / Threshold Limit Rs.  3. जोखिम की श्रेणी (के.वाई.सी. मानदण्डों के अनुसार) / Risk categorisation (Age per KYC norms) निम्न / मध्यम / उच्च  Low / Medium / High  शाखा / Branch  (शाखा प्रवन्धक / प्राप्तिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)	andan ai (		photo copy of the documents obtain
(Branch Manager/Authorised Officer)  (Cut Here)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And And Account opened by Operator (name)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (late)  (Cart And Account opened on Linke of the Account opened of the Cart opened on Linke on Linke of the Account opened on Linke of the Account of the Account opened on Linke on Linke on Linke of the Account opened on Linke on			
(Branch Manager/Authorised Officer)  (Cut Here)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And And Account opened by Operator (name)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (late)  (Cart And Account opened on Linke of the Account opened of the Cart opened on Linke on Linke of the Account opened on Linke of the Account of the Account opened on Linke on Linke on Linke of the Account opened on Linke on			
(Branch Manager/Authorised Officer)  (Cut Here)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And And Account opened by Operator (name)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (late)  (Cart And Account opened on Linke of the Account opened of the Cart opened on Linke on Linke of the Account opened on Linke of the Account of the Account opened on Linke on Linke on Linke of the Account opened on Linke on			
(Branch Manager/Authorised Officer)  (Cut Here)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And And Account opened by Operator (name)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened of Officer)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened of Officer  (Cart And Account opened on (date)  (Cart And Account opened on (late)  (Cart And Account opened on Linke of the Account opened of the Cart opened on Linke on Linke of the Account opened on Linke of the Account of the Account opened on Linke on Linke on Linke of the Account opened on Linke on	( शाखा पबन्धक / पाधिकत अधिकारी )	ऑपरेटर	अधिकारी
खाता खोलने वाले ऑपरेटर का नाम / Account opened by Operator (name) प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name) इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.			
खाता खोलने वाले ऑपरेटर का नाम / Account opened by Operator (name) प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name) इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.	. जाता खोलने की तिथि	بنات المساحة ا	बिंक किया दियांक दाप
प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name)  इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on  ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.	GINI GINI THINIT		
प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name)  इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on  ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.			
प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorised person/officer (name)  इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on  ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.		J	
इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बॅंकिंग पहचान प्रेषण की तिथि / Internet (INB) / Tele Banking Id despatched on	खाता खोलने वाले ऑपरेटर का नाम / Account op	pened by Operator (name)	
ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Smart Card / Debit Card No.	प्राधिकृत व्यक्ति / अधिकारी का नाम / Authorise	d person/officer (name)	
धन्यवाद पत्र ग्राहक को दिनांक / Letter of thanks sent to customer on	इंटरनेट (आई.एन.बी.) / टैली बैंकिंग पहचान प्रेष	ण को तिथि / Intemet (INB) / Tele Banking Id de	espatched on
परिचयदाता को दिनांक को भेजा गया / Introducer on	ए.टी.एम. / स्मार्ट कार्ड सं. / ATM / Debit / Sma	urt Card / Debit Card No. ———	भेजने की तिथि / despatched on ——————
o. पावती ग्राहक से दिनांक / Acknowledgement received from customer on को ओर /and परिचयदात दिनांक को प्राप्त हुई / introducer on पर रजिस्टर में दर्ज किया गया / Nomination form entered in the register at serial No सीबीएस में नामांकन संख्या / CBS Nomination No प्रारंभिक सीमा रु. / Threshold Limit Rs अनुसार) / Risk categorisation (Age per KYC norms) निम्न / मध्यम / उच्च Low / Medium / High  शाखा / Branch (शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)	धन्यवाद पत्र ग्राहक को दिनांक / Letter of thanks	s sent to customer on —————	और / /
o. पावती ग्राहक से दिनांक / Acknowledgement received from customer on को ओर /and परिचयदात दिनांक को प्राप्त हुई / introducer on पर रजिस्टर में दर्ज किया गया / Nomination form entered in the register at serial No सीबीएस में नामांकन संख्या / CBS Nomination No प्रारंभिक सीमा रु. / Threshold Limit Rs अनुसार) / Risk categorisation (Age per KYC norms) निम्न / मध्यम / उच्च Low / Medium / High  शाखा / Branch (शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)	परिचयदाता को दिनांक को भेजा गया / Introduce	er on	
दिनांक को प्राप्त हुई / introducer on			
. नामांकन फार्म सं पर रजिस्टर में दर्ज किया गया / Nomination form entered in the register at serial No सीबीएस में नामांकन संख्या / CBS Nomination No			
सीबीएस में नामांकन संख्या / CBS Nomination No.  2. प्रारंभिक सीमा रु. / Threshold Limit Rs.  3. जोखिम की श्रेणी (के.वाई.सी. मानदण्डों के अनुसार) / Risk categorisation (Age per KYC norms) निम्न / मध्यम / उच्च Low / Medium / High  शाखा / Branch (शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)	•		
2. प्रारंभिक सीमा रु. / Threshold Limit Rs.  3. जोखिम की श्रेणी (के.वाई.सी. मानदण्ड़ों के अनुसार) / Risk categorisation (Age per KYC norms) निम्न / मध्यम / उच्च			
3. जोखिम की श्रेणी (के.वाई.सी. मानदण्ड़ों के अनुसार) / Risk categorisation (Age per KYC norms) निम्न / मध्यम / उच्च Low / Medium / High  (शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)			
Low / Medium / High  (शाखा प्रबन्धक / प्राधिकृत अधिकारी) (Branch Manager/Authorised Officer)  (Cut Here) - वहाँ काटे		गर ) / Risk categorisation (Age per KYC norm	ıs) निम्न / मध्यम / उच्च  ———————————————————————————————————
शाखा / Branch (Branch Manager/Authorised Officer)	3	The state of the s	Low / Medium / High
शाखा / Branch (Branch Manager/Authorised Officer)			
शाखा / Branch (Branch Manager/Authorised Officer)			
	शाखा / Branch		
	0 -		
ਰਿਸ਼ਤ ਤਸਤਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਸਮਾ ਤਸਮੀ ਹੈਤਮਾਤੀ	(Cut Here)		यहाँ काटे
■ TOMED /2140/141 OF TWIT OF ANT ZHIAT CICIMIZE WWW WODDONN COM 101/25 CP.1			
I SI ISINISI MUMUI DIUMOO TION OMI TTODONO TIVITONONO TIVITONO T		3	
For further detail please visit our website www.mgbbank.com			
. S. ISLEIS. Gottin places viole our violatio www.mgbbumi.com			
. C. ISLEIC. GOLGII PIOGOG VIOLOGII WOODIIG WWW.IIIgobaliik.com			
. S. ISLEIS. Gottan product viole our violente www.mgbbum.com			
. C. ISLEE, GOLGE VIOLOGE WOODER WWW.HISDOCHE			
. C. Id.a.c. dottall product violation www.ingopulin.com			

	ायकर्त्ता प्रमाणपत्र  Introducer's Certificate (जहां आवश्	यक हो Wh	ere necessary)
ιu∔			को पिछले
	⁄ वर्ष से जानता हूँ और पुष्टि करता हूँ कि खाता खोलने के फार्म	में उल्लेखित	
ner	ify that I have known Mr/Mrs/Ms	4 3 ( (11 3 (1	for the last
ion	hs/years and confirm his/her occupation and address sta	ted in his/he	er application for opening of account.
	,		
	परिचयदाता के हस्ताक्षर/Signature of Introducer		सत्यापन अधिकारी के ह. एवं ह. सं./Verifying Officer Sign. & S.S. No
ात			
	श्य <b>क प्रलेख</b> – निम्नांकित 2 सूचियों में प्रत्येक से कोई एक प्रलेख	<del></del>	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
OC	<b>UMENTS REQUIRED</b> : Any one document from each of t		
st		List-l	Ⅱ ᢩ * (6माह से पुराना न हो ) / * (Not more than 6 months old)
	पासपोर्ट, यदि पता अलग है	i)	क्रेडिट कार्ड विवरण ( 3 माह से अधिक पुराना नहीं )
	Passport (Where address differs)		Credit Card Statement (Note more than 3 months old)
	चुनाव पहचान पत्र Election ID Card	ii)	वेतन पर्ची * Salary Slip
)	आधार कार्ड Aadhaar Card	iii)	आय/धन कर निर्धारण आदेश*
)	पी.ए.एन. कार्ड PAN Card		Income/Wealth tax assessment order
	सरकार/रक्षा विभाग का पहचान कार्ड	iv)	बिजली का बिल* Electricity bill
	Govt./Defence ID Card	v)	लैंड लाईन टेलीफोन का बिल (3 माह से अधिक पुराना नहीं)
)	सुप्रतिष्ठित नियोक्ताओं के पहचान कार्ड	,	Landline Telephone Bill (Note more than 3 months old)
	ID Card of Reputed Employers	vi)	बैंक खाता विवरणी*Bank account statement
)	वाहन चालन लाइसेन्स Driving Licence	vii)	प्रतिष्ठित नियोक्ता का पत्र ( बैंक का स्वीकार्य ) *
i)	पेंशन भुगतान आदेश Pension Payment Order	v11)	Letter from any reputed employer (acceptable to bank)
′	पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	!!!\	मान्यता प्राप्त कम्पनी का पत्र (बैंक को स्वीकार्य)*
)		viii)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Photo ID Card issued by Post Office नरेगा जॉब कार्ड NAREGA Job Card		Letter from any recognized public authority (acceptable to bank)
)	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र/अंक तालिका (फोटो युक्त)	iv)	राशन कार्ड ( नवीनतम) / Ration Card (Latest)
,	9 1	ix)	एस.डी.एम. द्वारा जारी निवासी प्रमाण-पत्र
	Secondary; School Certificate / Mark-Sheet (With Photo	o) x)	
			Bonafide resident certificate issued by SDM
		vi)	MI 4 IIIIII A Lease Agreement
		xi)	लीज एग्रीमेन्ट Lease Agreement
•		xii)	अन्य ( उल्लेख करें) * / Other (please specify)
दि १	गवी ग्राहक पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर पता वहीं है ज	xii) ो उनके द्वारा र	अन्य ( उल्लेख करें ) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व परं
नों व	h लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address	xii) <b>ो उनके द्वारा र</b> on the docum	अन्य ( उल्लेख करें ) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha
नों व	h लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address	xii) <b>ो उनके द्वारा र</b> on the docum	अन्य ( उल्लेख करें ) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha
नों र	के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ।If the address ed by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website	xii) <b>ो उनके द्वारा र</b> on the docum accepted as a e: www.mgl	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) <mark>खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर्</mark> nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com
नों र	के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address ed by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक	xii) ग्रे उनके द्वारा र on the docum accepted as a e: www.mgl	अन्य ( उल्लेख करें ) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com ubmission of information is optional
नों र	के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address ed by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक	xii) ग्रे उनके द्वारा र on the docum accepted as a e: www.mgl	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) <mark>खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व परे</mark> nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com
नों व cla Det	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address ed by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक ( प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि	xii) गो उनके द्वारा र on the docum accepted as a: www.mgl 5) है / Si स्या जाए) (	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com ubmission of information is optional To be obtained for each applicant separately)
नों न cla Det	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रिपेत करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING ।	xii) गो उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / S स्या जाए ) (	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व प्र nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com ubmission of information is optional To be obtained for each applicant separately)
नों र cla Def खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING । द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही	xii) गो उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / Su स्या जाए) ( INFORMAT गयी है, जो कि	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व प nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately) TION  क मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है:-
नों cla Def चन खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address de by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING । द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creating coercion.	xii) ni उनके द्वारा र on the docum accepted as a e: www.mgl o) है / So च्या जाए) ( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व प्र nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com ubmission of information is optional To be obtained for each applicant separately) TION के मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily withou
नों व cla Def खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING । द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creating coercion.	xii) गो उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / Su स्या जाए) ( INFORMAT गयी है, जो कि on of data	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately) TON  क मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without अविवाहित/Unmarried
नों cla Def चन खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रप्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative (coercion.  वैवाहिक स्थिति  जापकी शैक्षणिक योग्यता	xii) गो उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / Su स्या जाए) ( INFORMAT गयी है, जो कि on of data	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately) TION  क मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without अविवाहित/Unmarried नातक  स्नातकोत्तर  व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)
नों cla Del खा खा ne rce	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creating coercion. वैवाहिक स्थित व्ववाहित/Mai हायर सैकण्डर्र अधापको शैक्षणिक योग्यता Your Educational Qualification	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / Si या जाए) ( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data rried 3 री तक 5	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व प्र nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional (To be obtained for each applicant separately) (TON) (FION) (FION) (FICON) (
नों cla Del खा खा ne rce	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative operation. विवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र अपन होयर सैकण्डर्र अपन होयर सैकण्डर्र आपके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डर्र हायर सैकण्डर्र जावनसाथी की शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डर्र	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / So स्या जाए) ( INFORMAT ो गयी है, जो कि on of data rried 3 री तक र	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried नातक  स्नातकोत्तर  Post-Graduate  Professional (Please Specify) न्यवसायिक (कृपया इंगित करें) व्यवसायिक (कृपया इंगित करें) व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)
नों व cla Def खा खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि । प्रत्येक आवेदक हो तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही (ollowing information required by the branch for creation / coercion. वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर प्राप्त प्राप्त मिक्स शिक्षणिक योग्यता   Upto HSC हायर सैकण्डर प्राप्त हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर प्राप्त हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर प्राप्त हायर सैकण्डर हायर सैकण्ड हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्य हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्य हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्य हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर सैकण्डर हायर हायर सैकण्डर हायर हायर सैकण्डर हायर हायर सैकण्य हायर हायर सैकण्य हायर हायर हायर सैकण्य हायर हायर हायर हायर हायर हायर हायर हाय	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl 5 ) है / So स्या जाए) ( INFORMAT ो गयी है, जो कि on of data rried 3 री तक र	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व फार्म का शां के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व फार्म का शां का प्रहार व फार्म का शां
नों र cla Dei खा खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative occercion. वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर पर्वाहिक स्थित प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त हायर सैकण्डर प्राप्त प्राप्त के जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हायर सैकण्डर परिवार के सदस्य / Family members	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b है / Si rया जाए)( INFORMAT n यी है, जो कि on of data rried 3 री तक 3 री तक 4	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without plants are being given by me/us voluntarily without plants are post-Graduate  — एका प्रात्त को त्र प्रात्त करें।  Graduate — Post-Graduate — Professional (Please Specify) — स्नातकोत्तर — व्यवसायिक (कृपया इंगित करें) Graduate — Post-Graduate — Professional (Please Specify) — स्नातकोत्तर — व्यवसायिक (कृपया इंगित करें) Graduate — Post-Graduate — Professional (Please Specify)
नों cla Det खा खा	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेष आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative / coercion. वैवाहिक स्थिति विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र   प्राप्त से जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता   Upto HSC हायर सैकण्डर्र   Upto HSC परिवार के सदस्य / Family members   11 से 20 तक	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b है / So स्या जाए) ( INFORMAT ो गयी है, जो कि on of data rried 3 ती तक 5 ती तक 6	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व फा ents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  के मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried  नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)  Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify)  के के के के 60 वर्ष से ऊपर कुल
नों cla Det खा ie	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative occion. वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्ग (Upto HSC) आपके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b है / Si rया जाए)( INFORMAT n यी है, जो कि on of data rried 3 री तक 3 री तक 4	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व फा ents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  (To be obtained for each applicant separately) (TON) (FION) (FION) (FICON) (F
नों cla Det खा ie	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेष आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative (coercion. वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र (Upto HSC) जापके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की सख्या	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b है / So स्या जाए)( INFORMAT ो गयी है, जो कि on of data rried 3 ती तक 5 ती तक 6	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व फा ents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  के मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried  नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)  Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify)  के के के के 60 वर्ष से ऊपर कुल
नों cla Def खा खा ne rce	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि एप्रेषित करने हेतु सहमित / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creation (coercion. वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai जापको शैक्षणिक योग्यता पर्णा हायर सैकण्डर (परिवार के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की सख्या	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b है / So स्या जाए)( INFORMAT ो गयी है, जो कि on of data rried 3 ती तक 5 ती तक 6	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व प्र nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the availd proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TON  क मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank, are being given by me/us voluntarily without place at the bank plac
नों cla Def खा खा ne rce	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative voercion.  वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र प्राप्त प्राप्त की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त हायर सैकण्डर्र Upto HSC आपके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की संख्या	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b है / So स्या जाए)( INFORMAT ो गयी है, जो कि on of data rried 3 ती तक 5 ती तक 6	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  के मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें) Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify) नातक Yenders (कृपया इंगित करें) Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify) नातक 46से 60 वर्ष तक 60 वर्ष से ऊपर कुल rs. 46 to 60 yrs. Total
चा cla Del खा खा ne rce	ह लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि एप्रेषित करने हेतु सहमित / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creation (coercion. वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai जापको शैक्षणिक योग्यता पर्णा हायर सैकण्डर (परिवार के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की सख्या	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: e: www.mgl b) है / Si cui जाए) ( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data rried 3 th तक 4 cui जाक 4 cui	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  के मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें) Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify) नातक Yenders (कृपया इंगित करें) Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify) नातक 46से 60 वर्ष तक 60 वर्ष से ऊपर कुल rs. 46 to 60 yrs. Total
नों : claa Det खा खा ne rce	के लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि एप्रेषित करने हेतु सहमित / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creation coercion.  बैवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर प्राप्त मिक जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की संख्या	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: e: www.mgl b) है / Si िया जाए) ( INFORMAT i गयी है, जो िक on of data rried 3 री तक 5 री तक 6 21 से 45 वर्ष 21 to 45 y	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TON  क मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily withou  अविवाहित/Unmarried नातक — स्नातकोत्तर — Post-Graduate — Professional (Please Specify)  Graduate — Post-Graduate — Professional (Please Specify)  क परेसे 60 वर्ष तक — A6से 60 वर्ष तक — 46 to 60 yrs. — above 60 yrs. — Total — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
चिन खा खा खा rce	क लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative coercion.  वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र (Upto HSC आपके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की संख्या No. of Males महिलाओं की संख्या No. of Females धर्म / Religion हिन्दू Hindu प्रस.सी. S.C.	xii) n उनके द्वारा ग on the docum accepted as: s: www.mgl b) है / Si प्या जाए) ( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data rried 3 tी तक 5 tी तक 6 21 से 45 वर्ष 21 to 45 y  ईसाई C एस.टी.	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TON  5 मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)  Fraduate Post-Graduate Professional (Please Specify)  नातक Yendrah (कृपया इंगित करें)  Fraduate Post-Graduate Professional (Please Specify)  क्वित्रात्विक 46से 60 वर्ष तक 60 वर्ष से ऊपर कुल rs. 46 to 60 yrs. above 60 yrs. Total    Christian   सिख Sikh   अन्य Other     S.T.   अो.बी.सी.O.B.C.   अल्पसंख्यक Minority
चिन खा खा खा rce	त लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address and by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative (coercion.  वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai विवाहिक स्थित विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र (Upto HSC अपापक जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की संख्या No. of Males महिलाओं की संख्या No. of Females धर्म / Religion हिन्दू Hindu मुस्लिम Muslim श्रीणी / Category सामान्य Gen. एस.सी. S.C.	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: s: www.mgl b: www.mgl rul जाए)( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data rried 3 tी तक 5 tl तक 6 21 से 45 वर्ष 21 to 45 y इंसाई C एस.टी.	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify)  खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TION  TON  TON  TON  TON  TON  TON  TO
नों iclas Det खा खा खा erce	क लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वेच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रयेक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो कि बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creative coercion.  वैवाहिक स्थित विवाहित/Mai विवाहित/Mai हायर सैकण्डर्र (Upto HSC आपके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की संख्या No. of Males महिलाओं की संख्या No. of Females धर्म / Religion हिन्दू Hindu प्रस.सी. S.C.	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: s: www.mgl b: www.mgl rul जाए)( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data rried 3 tी तक 5 tl तक 6 21 से 45 वर्ष 21 to 45 y इंसाई C एस.टी.	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as the a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TON  क मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily without  अविवाहित/Unmarried नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)  Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify)  क परितेष 46से 60 वर्ष तक 60 वर्ष से ऊपर कुल rs. 46 to 60 yrs. above 60 yrs. Total  Christian सिख Sikh अन्य Other  S.T. ओ.बी.सी. O.B.C. अल्पसंख्यक Minority  Wheeler Others  None
चों i ecla Det चित्र चित्र चित्र rce	क लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि ए प्रत्येक आवेदक से अलग-अलग प्राप्त कि ए प्रेषित करने हेतु सहमति / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ जो िक बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creation (coercion.  बैवाहिक स्थिति विवाहित/Mai हायर सैकण्डर (अपन हिपार सेकण्डर प्राप्त के प्रविद्या कि प्राप्त के प्रति के प्राप्त के प्रविद्या कि प्राप्त के प्रविद्या के प्रविद्या के प्रविद्या कि प्राप्त के प्रविद्या के प्या के प्रविद्या के	xii) n उनके द्वारा ग on the docum accepted as: s: www.mgl b: www.mgl accepted as: s: www.mgl accepted	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify) खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as tha a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TON  5 मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily withou  अविवाहित/Unmarried नातक स्नातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)  Graduate Post-Graduate Professional (Please Specify)  नातक Yenden Readuate Professional (Please Specify)  तिक 46से 60 वर्ष तक 60 वर्ष से ऊपर कुल rs. 46 to 60 yrs. above 60 yrs. Total    Christian   सिख Sikh   अन्य Other   S.T.   ओ.बी.सी.O.B.C. अल्पसंख्यक Minority     उस्या अन्य कुछ नहीं   Wheeler हम्ये तक पांच लाख रुपये से अधिव
चों aclassed and section and	त लिए प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है I If the address red by him/her in the account opening form, the document may be ailed list of documents are placed on our banks website सूचना प्रेषित करना वैकल्पिक (स्वैच्छिक (प्रत्येक आवेदक से अलग–अलग प्राप्त कि ए प्रत्येक आवेदक से अलग–अलग प्राप्त कि ए प्रेषित करने हेतु सहमित / CONSENT FOR FURNISHING I द्वारा निम्निलिखित सूचनाएँ जो िक बैंक डाटा तैयार करने हेतु जरूरी है, चाही following information required by the branch for creation coercion.  वैवाहिक स्थिति विवाहित/Mai हायर सैकण्डर (Vour Educational Qualification आपके जीवनसाथी की शैक्षणिक योग्यता Upto HSC परिवार के सदस्य / Family members आयु वर्ग 10 वर्ष तक 11 से 20 तक Age Group upto 10 yrs 11 to 20 yrs पुरुषों की संख्या Upto 16 yrs पुरुषों की संख्या Unto of Males महिलाओं की संख्या Unto of Females धर्म / Religion हिन्दू Hindu पुस्लम Muslim अंभि / Category सामान्य Gen. एस.सी. S.C. जीवन बीमा धारक है Upto ₹ 1.00 Lac	xii) n उनके द्वारा र on the docum accepted as: : www.mgl b हे / Si cu जाए)( INFORMAT i गयी है, जो कि on of data rried 3 th तक 5 th तक 6 21 से 45 वर्ष 21 to 45 y  इसाई C एस.टी. प्स.टी. प्राटी के सुचनाओं में	अन्य (उल्लेख करें) * / Other (please specify)  खाता खोलने के फार्म में घोषित किया गया है, तो उस दस्तावेज को पहचान व पर  nents submitted for identity proof by the prospective customer is same as that a valid proof of both identity and address. bbank.com  ubmission of information is optional  To be obtained for each applicant separately)  TON  के मेरे/हमारे द्वारा बिना किसी दबाव के दी गयी है :- base at the bank, are being given by me/us voluntarily withou  अविवाहित/Unmarried  नातक  नातक मातकोत्तर व्यवसायिक (कृपया इंगित करें)  अत्ववाबाहित/Unmarried  नातक Post-Graduate Professional (Please Specify)  के तक 46से 60 वर्ष तक 60 वर्ष से ऊपर कुल  rs. 46 to 60 yrs. above 60 yrs. Total    S.T. अो.बी.सी.O.B.C. अल्पसंख्यक Minority     उस्या अन्य Other     उस्या अन्य Others     उस्या अन्य Other     उस्या अन्य Other     उस्या अन्य Others     उस्या अन्य Other     उस्या अन्य Other     उस्या अन्य Others     उस्या अन्य Other     उस्या अन्य पांच लाख रुपये तक     2.00 Lac     पांच लाख रुपये तक     46 कोई भी सुचना कानुनी रुप से प्रयोग कर सकता है। (जो लागू हो कृषया ✓ का निशान लगाएं

The state of the s	अरएमजीबी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बेंक BRANCH/शाखा Rajasthan Marudhara Gramln Bank
	ना पत्रक खाता / ग्राहक सं.
( ख (An ( प्रत (to I ( কৃ	ORMATION SHEET  Account/Customer No.
क)	व्यवसाय / Occupation
1.	व्यवसाय 1. वेतन भोगी 2. स्व-नियोजित/व्यवसायिक 3. व्यवसाय 4. विद्यार्थी Occupation 5. सेवानिवृत Retired Retired 1. डॉक्टर Doctor Fiself employed 5. चार्टर अकाउन्टेंट 6. अन्य
3.	ि C.A.     निधियों का स्त्रोत / Source of funds
4.	(i) मासिक आय / वार्षिक आय
71.	Monthly income / Annual Income (ii) वार्षिक टर्न ओवर / Annual Turnover
ख)	व्यक्तिगत / Personal
5.	क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है / Do you have a Credit Card : हाँ / YES/ नहीं / NO (Please Tick)
6.	कोई संबंधी विदेश में स्थित है, हाँ नहीं यदि हाँ, तो कृपया उनके नाम और पते का उल्लेख करें।  Any relative settled abroad Yes No If yes, please mention their names and address  1. नाम / Name पता / Address  2. नाम / Name पता / Address  3. नाम / Name पता / Address
7.	आप पिछले तीन वर्ष में कितनी बार विदेश गए है  How many times you have been abroad in last three years  Never 1 to 5 times 5 से अधिक बार above 5 times
ग)	अन्य शाखाओं / बैंकों के साथ व्यवहार / DEALING WITH OTHER BRANCH / BANKS 1 हाँ/Yes 2. नहीं/No
	यदि हाँ, तो / If yes
8.	बैंक एवं शाखा / Name of the Bank and Branch ————————————————————————————————————
9.	जमा व ऋण खातों / सुविधाओं के प्रकार / Type of accounts(Deposits & Loan) / facilities ————————————————————————————————————
घ)	विद्यमान ऋण सुविधाएँ, यदि कोई हों / EXISTING CREDIT FACILITIES, IF ANY :
11.	हाँ/Yes नहीं/No हाँ/Yes नहीं/No कार ऋण / Car Loan
	व्यवसाय / कृषि / Business / Agl.
	कुल ₹ ( अनुमानित ) ∕ ASSETS : Total ₹ (approximate)
	आप जिस घर में रहते हैं पैतृक है स्वयं का है िकराये पर िनयोक्ता का है
18.	House you live in अन्य निवेश Other Investment Owned □ Rented □ Employer's 5 लाख ₹ तक □ Upto 1₹ Lac □ Upto 2₹ Lac □ Upto 5₹ Lac □ Upto 5₹ Lac
19.	अन्य दूसरी आस्तियां / Any Other Assets
स्थान	/ Palace :
दिनां	क / Date : ( ग्राहक के हस्ताक्षर ) / (Signature of the Customer)
	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —

जल जीवन का अनमाल रतन — इस बचान का करी जतन 8 Printed by : SHANTA PRINTERS 0291-2654321